



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 876 राँची, शुक्रवार

7 सितम्बर, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर, 2018

संख्या-8/गठन/104/2017/न०वि०आ०/4492-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा (2),(स) सहपठित धारा-4, 5, 6, धारा-8 की उपधारा-(3) तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज अंचल के 05 पंचायत के 12 राजस्व ग्रामों को मिलाकर, उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1048/ग्रा०पं०, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-251, दिनांक 15 जनवरी, 2018 द्वारा परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र हरिहरगंज नगर पंचायत) घोषित करने का 'प्रारूप आदेश' निर्गत किया गया । प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त, पलामू को निष्पादित करने का निदेश दिया गया ।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-499/ग्रा०पं०, दिनांक 25 जून, 2018 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०-251, दिनांक-15 जनवरी, 2018 के प्रारूप प्रकाशन के

30 दिनों के अंदर किसी तरह की आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपायुक्त, पलामू ने उक्त पत्र द्वारा हरिहरगंज नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा (2) (स) धारा-4, 5, 6, धारा-8(3) एवं धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज अंचल के 05 पंचायत के 12 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से हरिहरगंज नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
हरिहरगंज नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-499/ग्रा०प०, दिनांक 25 जून, 2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज अंचल के हरिहरगंज नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:-

निकाय का नाम	क्र०	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)
हरिहरगंज नगर पंचायत	1	सतगावाँ उर्फ हरिहरगंज	122	28467	2441.42
	2	अररुआ कला	125		
	3	अररुआ खूर्द	120		
	4	पाठक बीगहा	121		
	5	बिशुनपूर	113		
	6	बेलोदर	119		
	7	भगततेदुवा	178		
	8	कोशडिहरा	116		
	9	खापकटैया	117		
	10	पीपरा	114		
	11	अम्बा	124		
	12	डेमा	123		
			कुल-	28467	

हरिहरगंज नगर पंचायत एक झलक में :-

1.	हरिहरगंज नगर पंचायत की जनसंख्या	28467
2.	जनसंख्या का घनत्व	2441.42 प्रति वर्ग कि०मी०
3.	हरिहरगंज नगर पंचायत का क्षेत्रफल	11.66 वर्ग कि०मी०

ह०/-

(सचिव)

नगर विकास एवं आवास विभाग।
